



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अग्निशमन टीम ने मॉक ड्रिल कर फॉयर सेफ्टी उपकरणों को चलाने का दिया प्रशिक्षण-

मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण को संचालित करने हेतु आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के आदेशानुसार अग्निशमन टीम एवं आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीम द्वारा थाना श्रीनगर में राजकीय हाईस्कूल पिपरामाफ में उपस्थित समस्त बालक एवं बालिकाएं और वहा के स्टाफ को फायर सेफ्टी उपकरणों को चलाने एवं आपातकालीन स्थिति में स्वयं और दूसरो की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया।

अग्निशमन टीम

अग्निशमन टीम (एफएसओ देवेश तिवारी, लीडिंगफायरमैन जाहिर सिंह, चालक रमाशंकर सिंह, फायरमैन अमित कुमार)





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे तलाश/गिरफ्तारी वारण्टी अपराधी अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 02.09.2021 को महोबकंठ थाना प्रभारी सूरज प्रसाद द्वारा गठित उ0नि0 विनय विक्रम सिंह व का0 सौरभ सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्राम छितरवारा से अभियुक्त बलवान सिंह पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद सं0- 677/2018 धारा 323/504/506 भादवि संबंधित न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुलपहाड़(महोबा) में वारण्टी था जिसको गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित माननीय न्यायालय महोबा पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 विनय विक्रम सिंह
- 2- कां. सौरभ सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण:-

बलवान सिंह पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को सशक्त, स्वावलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति किया जा रहा है जागरूक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा मिशनशक्ति फेज 3.0 अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षकों/थाना प्रभारियों, थानों पर नियुक्त महिला बीट आरक्षियों सहित एन्टी रोमियों स्क्वाड को अपने अपने थाना क्षेत्रों में बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूक, स्वावलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

मिशनशक्ति फेज-3 के अन्तर्गत आज दिनांक 02.09.2021 को जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा गांव, मोहल्लों एवं कस्बों में चौपाल लगाकर, स्कूल कालेजों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं/ छात्राओं को स्वावलम्बी, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जनजागरूकता, आत्मरक्षा की कला पैदा करने के लिए, महिला हेल्पलाइन-1090, यूपी-112, 181 तथा कानून की धाराएं जैसे-बाल संरक्षण अधिनियम, छेड़छाड़, गुड टच – बेड टच आदि एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारियां देकर जागरूक करने के साथ साथ बालकों/नवयुवकों आदि के साथ मीटिंग कर अपराधों से दूर रहने तथा अपने आसपास तथा समाज में स्वच्छ वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया तथा अपने गांव की महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के संबंध में अवगत कराते हुए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करते हुये बताया गया कि आपके आस-पास यदि कोई अपराध में संलिप्त है या बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं से छेड़खानी करता है तो अपने परिवार में अवश्य बताये तथा बताये गये नम्बरों पर सूचना दे।

महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी की गयी तथा महिला सशक्तिकरण एवं महिला अपराधों एवं उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है तथा एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चैकिंग के दौरान शोहदों एवं बेवजह घूम रहे लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है ताकि भविष्य में दोबारा ना करे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“परिवार परामर्श केन्द्र”

कमेटी ने 04 परिवारों को बिखरने से बचाया-

आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन प्रांगण में **“परिवार परामर्श केन्द्र”** कार्यक्रम समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 08 मामलों को सुना गया, जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों के सूझबूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुये 04 परिवार का आपसी समझौता कराकर खुशी-खुशी वापस घर भेजा गया एवं अन्य मामलो में अगली तारीख दी गई है।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री सैनजीत सिंह, प्रभारी एण्टी रोमियो/मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह, महिला थानाध्यक्ष शिल्पी शुक्ला, म0कां0 कविता, म0कां0 प्रतिमा सिंह, म0कां0 चांदनी, समाजसेविका सुश्री नेहा चन्सौरिया, समाजसेवी श्री शरद तिवारी दाऊ, श्री शिवकुमार गोस्वामी, मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

निस्तारित किये गये मामले का विवरण:-

1. श्रीमती सुदीक्षा पत्नी रविन्द्र निवासी सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा।
2. श्रीमती काजल पत्नी प्रीतम निवासी रायकोट बन्धानवार्ड जनपद महोबा।
3. श्रीमती कल्पना सोनी पत्नी प्रदीप सोनी निवासी शेखूनगर थाना कोत0 महोबा।
4. श्रीमती सुनीता पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी बडी चन्द्रिका मन्दिर जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा जनपद में तैनात 33 पुलिस कर्मियों को उ0नि0 पद पर पदोन्नत होने पर सभी उपनिरीक्षकों के कन्धे पर स्टार लगाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की दी गयी शुभकामनायें।

पुलिस अधीक्षक कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ पत्र दिनांकित 26.08.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश उ0नि0 एवं निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 (यथासंशोधित) में नीहित प्रावधानों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर चयन वर्ष 2019 में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु प्राप्त चयन परिणाम को मां0 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नत किया गया है।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय में जनपद में तैनात 33 पुलिस कर्मियों को उ0नि0 के पद पर पदोन्नत हुये 33 उपनिरीक्षकों के कन्धे में स्टार लगाकर सभी की हौसला अफजाई की गयी, उ0नि0 के पद पर पदोन्नत हुये सभी 33 पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुये मिठाई खिलाकर उनके उज्ज्वल/निरोगी भविष्य की कामना की गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके करबे में की गई संदिग्धों की चेकिंग

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **30 ई-चालान** एवं कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **13 व्यक्तियों में 180000** वसूला गया।



आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खन्ना पुलिस टीम ने पीड़िता / अपहृता को सकुशल किया बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के सफल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे गुमशुदा अपहृता/पीड़िता की बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक 02.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना द्वारा गठित पुलिस टीम ने थाना खन्ना में गुमशुदगी क्रमांक 09/2021 से सम्बन्धित पीड़िता / अपहृता को बरामद किया गया, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेतर उचित कार्यवाही के उपरान्त उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सर्वेन्द्र सचान
2. का० शिव बाबू
3. म.का. कंदन